



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9—अगस्त 15, 2008 (श्रावण 18, 1930)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9—AUGUST 15, 2008 (SRAVANA 18, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जुलाई 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/118/3/24/2008/पर्स-1--निदेशक, केन्द्रीय
अन्वेषण ब्यूरो ने श्री एम. एस. एस. सीतापती राव, अपराध सहायक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 09.07.2008 पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)
के.अ.ब्यूरो/मु./नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. ई-28017/1/नोटि/2008/कार्मिक-2/1042--केन्द्रीय सिविल सेवा
(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर निम्नलिखित
अधिकारियों ने सरकारी सेवा से उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि
को सम्बन्धित के.ओ.सुब. इकाई/मुख्यालय से अपने पर का कार्यभार छोड़
दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	तिथि	इकाई
1.	डॉ. एस. मुरदेंबर (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)	उप महानिरीक्षक	03.07.2008 (पूर्वाह्न)	उ.पूर्व. जोन मुख्यालय/ एन.ई. जेड. कोलकाता
2.	अनिल मिथल (सुपररेनुएशन)	कमाण्डेंट	30.06.2008 (अपराह्न)	के.ओ.सुब./ आर.टी.सी. भिलाई
3.	पी. डॉ. बर्मन (सुपररेनुएशन)	कमाण्डेंट	30.06.2008 (अपराह्न)	के.ओ.सुब. तृतीय/3री आ. वाहिनी भिलाई
4.	बी. एन. खरकवाल (सुपररेनुएशन)	सहायक कमाण्डेंट	30.06.2008 (अपराह्न)	के.ओ.सुब. जी.बी.एम. नई दिल्ली
5.	जी. डॉ. चौर (सुपररेनुएशन)	सहायक कमाण्डेंट जे ए ओ	31.05.2008 (अपराह्न)	के.ओ.सुब. बी.एस.पी. भिलाई

ह./अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद-500004, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. एजी(एएण्डई)/प्रशा.-I/I/8-88/2008-09/84--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष अनुमति के साथ सहायक लेखा अधिकारी को पदोन्नत किया जाता है ताकि नीचे दर्शाये गये नामित कर्मचारियों को प्रस्तुत दिनांक से रुपये 7,500--12,000/- वेतनमान में स्थानापन्न रूप में लेखा अधिकारी के पद में काम करेंगे :--

क्र. नाम	लेखा अधिकारी के पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1. श्री अवध नाथ राय	01.07.2008
2. श्री एम. ए. मुनिर खान	03.07.2008

यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिट अर्जी लंबित है। इसके अलावा भी यह पदोन्नति बिना किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दबाव या बिना पूर्वग्रह आदेश को जारी किया जाता है।

ह/- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खंड II--निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान पर वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया गया है :--

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमति	
1.	आर. राधकृष्णन	01.01.2008
2.	पी. वेणुगोपालन नायर	01.01.2008
3.	के. तंबी चाक्का	01.01.2008
4.	वी. माधवन नंपूतिरी	01.01.2008
5.	पी. जी. सेबास्टियन	01.01.2008
6.	आर. तुलसीधरन पिल्लै	01.01.2008
7.	ए. ए. कुर्याक्कोस	01.01.2008
8.	पी. एस. रवींद्रन	01.01.2008

1	2	3
9.	ए. सी. जेम्स	01.01.2008
10.	जोण के. आन्टणी	01.01.2008
11.	विष्णुदेवी राजसेनन	01.01.2008
12.	जोसफ के. आन्टणी	01.01.2008
13.	पी. एस. बालकृष्णन	01.01.2008
14.	वी. पी. मात्तू	01.01.2008
15.	पी. वी. शंकरन उण्णी	14.02.2008
16.	पी. वी. सुशीला अंतरजनम	15.02.2008

पी. उन्नीकृष्णन
उप महालेखाकार/प्रशासन

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खंड II--निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 7,500-250-12,000/- रु. के वेतनमान पर लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया गया है :--

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमति	
1.	जोसफ सेबास्टियन	03.07.2007
2.	सी. अशोक	04.07.2007
3.	पी. आन्टणी जेम्स	02.08.2007
4.	एस. राजेंद्र प्रसाद	03.09.2007
5.	एम. जी. रवींद्रन	03.09.2007
6.	आर. मोहनचंद्रन	01.10.2007
7.	ओ. के. राधकृष्णन नायर	01.10.2007
8.	के. जयप्रकाश	01.10.2007
9.	पी. जी. नलिनाक्षी	01.10.2007
10.	वी. विश्वनाथ	01.10.2007
11.	के.आर. मुरलीधरन	01.10.2007
12.	वी. एस. राधकृष्णन नायर	01.11.2007
13.	एस. विजयकुमारी	03.12.2007
14.	सी. गोपालन	05.12.2007
15.	के. पी. नारायणन कुट्टी	05.12.2007
16.	पी. एम. कृष्णन	01.01.2008

1	2	3
17.	रोय सुकुमारन	01.01.2008
18.	सी. श्यामलादेवी अम्मा	01.01.2008
19.	डी.एस. रेमाकृष्णन	01.02.2008
20.	जोसफ जॉज	03.03.2008
21.	ए. के. केरलवर्मन	03.03.2008
22.	पी. सति	03.03.2008
23.	ए. सुब्रह्मण्यन	03.03.2008
24.	आर सुरेंद्रन	03.03.2008
25.	जोर्ज उम्मन	01.05.2008
26.	पी. एम. मात्यु	01.05.2008
27.	ओ. टी. माधवमेनोन	01.05.2008
28.	वी. पी. गोपालकृष्णन	01.05.2008
29.	बी. विजयकुमार (सं. 3)	01.05.2008
30.	पी. कोया	01.05.2008
31.	पी. जी. जनार्थनन नायर	02.06.2008
32.	पी. एम. उषा	02.06.2008
33.	जी. श्रीनिवास राव	02.06.2008
34.	ए. वेणुगोपालन	02.06.2008
35.	जेम्सकुट्टी सिरियक	02.06.2008
36.	टी. एम. मोहनन	02.06.2008
37.	के. गोपालकृष्णन्	02.06.2008
38.	पी. एम. वासुदेवन	02.06.2008
39.	वी. डी. विजयकुमार	02.06.2008
40.	ए. एम. धानवास	02.06.2008

पी. उन्नीकृष्णन
उप महालेखाकार/प्रशासन

7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया गया है :--

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	जी गिरिजा	01.01.2008
2.	वी. मोहनदास	01.01.2008
3.	लयनल फ्रान्सिस जेसन	01.01.2008
4.	जी. कृष्णमूर्ती	01.01.2008
5.	वी. नारायणन कुट्टी	01.01.2008
6.	के. जिजो बास्ट्यन	01.01.2008
7.	जोस मात्यु (सं. 2)	01.01.2008
8.	आर. जयदीप	01.01.2008
9.	एस. आर. रश्मी	14.02.2008
10.	एस. श्याम	14.02.2008
11.	एस. लक्ष्मी	14.02.2008
12.	एस. मोहनचंद्रन नायर	19.03.2008
13.	षिवी बेन्नी	19.03.2008
14.	डी. राजेंद्रन	19.03.2008
15.	एस. गोपकुमार	19.03.2008
16.	एल. शिवकुमार	19.03.2008
17.	के. वी. सुरेश कुमार	19.03.2008
18.	एम. पी. हंसा	19.03.2008
19.	लिया वर्गीस	19.03.2008
20.	सी. वी. हेमा	31.03.2008
21.	बिनोज सी. वर्गीस	31.03.2008

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खंड II--निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से

पी. उन्नीकृष्णन
उप महालेखाकार/प्रशासन

महालेखाकार (ले. व हक.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 24 जुलाई 2008

सं. का.स्था./ह व रो/ईVपें/72--भारतीय लेखा तथा लेखपरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती एलिजबैथ चेरियान	वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	30.06.2008अ. (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती के. श्रीकुमारी अम्मा	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	30.06.2008अ. (अधिवर्षिता)

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2008

सं. 32012/1/2008-डीसीएच/स्था.-I--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी प्रोन्नति के आधार पर श्री नवनीत शर्मा को 13 फरवरी, 2007 की (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर सहायक निदेशक श्रेणी-II के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन कुमार झा
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. 32012/1/2008-डीसीएच/स्था.-I--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी प्रोन्नति के आधार पर श्री तापस सरकार को 13 फरवरी, 2007 की (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर सहायक निदेशक श्रेणी-II के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन कुमार झा
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. 32012/1/2008-डीसीएच/स्था.-I--कार्यालय अधीक्षक (समूह "ख" अराजपत्रित) के पद को सहायक निदेशक श्रेणी-II (समूह "ख" राजपत्रित) पद बनाए जाने के परिणामस्वरूप, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी उक्त पद के पदधारी श्री स्वप्न चौधरी को पुनर्नामित पद की तारीख

अर्थात् 11 अगस्त, 2003 (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर सहायक निदेशक श्रेणी-II के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन कुमार झा
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. 32012/1/2008-डीसीएच/स्था.-I--कार्यालय अधीक्षक (समूह "ख" अराजपत्रित) के पद को सहायक निदेशक श्रेणी-II (समूह "ख" राजपत्रित) पद बनाए जाने के परिणामस्वरूप, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी उक्त पद के पदधारी श्री दीप चंद को पुनर्नामित पद की तारीख अर्थात् 11 अगस्त, 2003 (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर सहायक निदेशक श्रेणी-II के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन कुमार झा
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. 32012/1/2008-डीसीएच/स्था.-I--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी प्रोन्नति के आधार पर श्री एन. पुरुषोत्तम को 19 अक्टूबर, 2005 की पूर्वाह्न से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान पर सहायक निदेशक श्रेणी-II के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन कुमार झा
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. 7-9/2008-प्रशा.1--भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने श्री अनिल सहजपाल को जून 16, 2008 के पूर्वाह्न के प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस निदेशालय में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में पादप संरक्षण अधिकारी (पादप रोग विज्ञान) समूह-ख राजपत्रित पद पर नियुक्त किया है।

एच. सी. रुस्तगी
अवर सचिव (मु.)

दिनांक 24 जुलाई 2008

सं. 7-12/2008-प्रशा.1--भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने मिस डी. टी. भम्भानी, कार्यालय पर्यवेक्षक (वेतनमान 5,500-9,000 रुपए) को मई 9, 2008 के पूर्वाह्न से प्रोन्नति के आधार

पर इस निदेशालय में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II (ग्रुप-बी राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया है।

एच. सी. रुस्तगी
अवर सचिव (मु.)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 15 जुलाई 2008

संदर्भ : पीडी/2(4)/2007/भर्ती-IV/6119--राष्ट्रपति, श्री शैजु बी. एस. को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 9 मई, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

न. द. शर्मा
नियंत्रक

दिनांक 16 जुलाई 2008

संदर्भ : पीडी/2(10)/2006/भर्ती-IV/6109--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'डी' के पद पर रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 15 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

न. द. शर्मा
नियंत्रक

दिनांक 22 जुलाई 2008

संदर्भ : पीडी/2(10)/2006/भर्ती-IV/6307--राष्ट्रपति, श्री सबावत किशन को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'डी' के पद पर रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 27 जून, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

न. द. शर्मा
नियंत्रक

मुंबई-400085, दिनांक 10 जून 2008

संदर्भ : पीडी/2(04)/2006/भर्ती-IV/4832--राष्ट्रपति, डॉ. श्रीदेवी सितारामन को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- + एन. पी. ए. के वेतनमान में 11 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

2-186 GI/2008

एस. जी. मर्कंडेय
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(सेवा एकक अनुभाग)

मुंबई-400001, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. 7/2(6)/2005-एसयूएस/4395--राष्ट्रपति, श्री सुमन बाबू मुदुलाकर को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में मूल वेतन रु. 8,000/- पर दिनांक 17.06.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "सी" के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

सं. 7/2(6)/2005-एसयूएस/4346--राष्ट्रपति, श्री अंशुमान शुक्ला को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में मूल वेतन रु. 8,000/- पर दिनांक 18.06.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "सी" के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

मुंबई-400094, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. 18/1/6/2008-ईआर/2914--राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा की परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के कार्यकाल का विस्तार दिनांक 31.1.2010 तक या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(64)/2001-भर्ती/खंड III/454--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्रीमती वीणा पाध्ये, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक रु. 5,500-175-9,000/- वेतनमान, निसेसंप्रनि, मुंबई को तदर्थ आधार पर निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, पञ्जि में दिनांक 13.05.2008 (पूर्वाह्न) से 13.06.2008 (अपराह्न) तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में श्री नरसिंह राम, सहायक निदेशक (राजभाषा के छुट्टी पर जाने से हुए रिक्त पद पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एस. मण्डु
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(64)/2001-भर्ती/खंड III/454--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री सी. एन. कुचेकर, सहायक सुरक्षा अधिकारी(ए) रु. 5,000-150-8,000/- वेतनमान, निसेसंप्रनि, मुंबई को तदर्थ आधार पर निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, पञ्चवि में दिनांक 21.04.2008 (पूर्वाह्न) से 06.06.2008 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- वेतनमान में श्री पॉल माल्यु, सुरक्षा अधिकारी, निसेसंप्रनि, के छुट्टी पर जाने से हुए रिक्त पद पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एस. माल्यु
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 23 जुलाई 2008

सं. नाईस/काप्रभ-II/2-2008/194--मुख्य कार्यपालक, एनएफसी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायक ग्रेड 'सी' को वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता "एसबी" (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/-), के ग्रेड में, भावी आदेश होने तक, इसी इकाई में स्थानापन्न हैसियत में 01.02.2008 से नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम
01.	श्री आर. सोमय्या
02.	श्रीमती के. राधका
03.	श्री बी. एन. बी. आर. के. गुप्ता

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी-III

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

एन. एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 24 जुलाई 2008

सं. 3-1602/2008-इंजी.-स्था.4303--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री संजीव कुमार, वीरेन्द्र कुमार बैसखियार को 7,500-250-12,000/- रुपये तथा अन्य लागू भत्तों के वेतनमान पर वेधक प्रभारी, समूह 'ख' (राजपत्रित) के पद पर अस्थाई रूप से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड प्रभाग-12, भोपाल में दिनांक 29.06.2007 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है।

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

एस. के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

सं. 8-20/2008-इंजी.-स्था.4312--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह ख राजपत्रित) की सिफारिश पर निम्नलिखित अधिकारियों को 7,500-250-12,000/- रुपये तथा अन्य लागू भत्तों के वेतनमान पर वेधक प्रभारी, समूह 'ख' (राजपत्रित) के पद पर अस्थाई रूप में निम्नलिखित तिथि से नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान	कार्यग्रहण तिथि
1.	श्री आर. सी. राभा	प्रभाग-7, गुवाहटी	24.04.2008
2.	श्री एस. अढ्या	प्रभाग-14, बेंगलूर	09.05.2008

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

एस. के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
कार्यालय : कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मालवीया बिल्डर्स लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 31 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी/560/7557/385--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मालवीया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वारियर्स सिक्वोरिटी सर्विसेज लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. आर.ओ.सी/560/17747/1052--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वारियर्स सिक्वोरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरासूरी मेटल एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. आर.ओ.सी/560/9136/1106--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरासूरी मेटल एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री बजरंग बली मार्वो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 22 जुलाई 2007

सं. आर.ओ.सी/560/17615/1157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री बजरंग बली मार्वो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुजला ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 25 जुलाई 2007

सं. आर.ओ.सी/560/6198/1190--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुजला ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/1216--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	4392	मैसर्स कपुत सेविंग्स एण्ड फाईनेन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	9958	मैसर्स एम्ब्रोसिया हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
3.	5990	मैसर्स टाइमेक्स हायर लिजिंग एण्ड जनरल फाईनेन्स लिमिटेड

के. एस. प्रधान
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एण्ड झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दील्लई वैली वुडक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. 560(5)/एमसीए/स.ब./शिलांग/धारा/560/2008/174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दील्लई वैली वुडक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

स्वाधीन बरुआ
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स महाराष्ट्र ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 27/560/77191/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महाराष्ट्र ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

जाती है कि मैसर्स विद्येश्वरी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एस. के. कॉर्पोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सं. 170/560/114147/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. के. कार्पोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 6/560/63543/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एलीक्षीर ग्रेनाईट एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स भिवंडीवाला कन्टेनर फ्रेट स्टेशन उरण प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

सं. 291/560/105873/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भिवंडीवाला कन्टेनर फ्रेट स्टेशन उरण प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 16/560/72703/560(5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुहेतेसा ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर में काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स भद्रबाह सिव्हरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
भद्राबाद

सं. 285/360/105858/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 360 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रैसर्स फुल ग्राइड स्मॉक्यूरींग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज मजिस्ट्रेट से बदल दिया गया है और उक्त कम्पनी विधिवत हो गई है।

पं. 65-5601-124369(5)-कमरा, पणवेल्ल, ४९६ वर्ग
५०० का कमरा - (५) पं. ६५५६०१ के पत्रादेश के अन्तर्गत दो

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जीजा माता अँग्रेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 279/560/105844/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जीजा माता अँग्रेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जीन्स केयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 264/560/105644/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जीन्स केयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स समृद्ध फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 261/560/105617/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स समृद्ध फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तृप्ति इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 75/560/105712/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स तृप्ति इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रेनबो विनिल फ्लोरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 84/560/105721/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेनबो विनिल फ्लोरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इरिस्को कैपिटल ऑप्सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 97/560/105727/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इरिस्को कैपिटल ऑप्सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अँकर पेट्रो-केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 119/560/114350/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अँकर पेट्रो-केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मायरीड इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 389/560/108967/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मायरीड इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स योगेश्वरी मैनुफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 50/560/114931/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स योगेश्वरी मैनुफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डासमेश ग्रैनाईट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 184/560/70598/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डासमेश ग्रैनाईट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वेस्टर्न ग्रैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 168/560/31422/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स वेस्टर्न ग्रैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स टास्को मार्मो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 160/560/132758/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टास्को मार्मो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मिरर मार्बल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 404/560/55670/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिरर मार्बल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सुमित ग्रैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 408/560/56433/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुमित ग्रैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सामयक स्टोन क्रशर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 431/560/114850/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सामयक स्टोन क्रशर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रानेश टेक्स्टोन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 62/560/114470/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रानेश टेक्स्टोन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रोबस्ट ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 65/560/116253/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोबस्ट ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेनेक्स्ट इन्फ्रासिस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 68/560/117244/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेनेक्स्ट इन्फ्रासिस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अमुल कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 275/560/106618/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमुल कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अभिजीत जनरल फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 264/560/103036/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अभिजीत जनरल फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुसवानी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 409/560/110988/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुसवानी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ट्रीनिटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 335/560/109648/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स ट्रीनिटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कुन्दाम एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 225/560/108178/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुन्दाम एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स निधी ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 421/560/104630/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निधी ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रैम्पोर्ट फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 323/560/108322/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रैम्पोर्ट फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ब्लेन्ड फिनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 316/560/106672/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्लेन्ड फिनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बंधे केमिकल्स एण्ड सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 693/560/81227/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बंधे केमिकल्स एण्ड सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ट्रायस्टार डाय-केम इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 696/560/81280/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रायस्टार डाय-केम इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जय चक्र केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 614/560/81131/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स जय चक्र केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कान क्ले कोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 98/560/55246/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कान क्ले कोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इन्डस्पेक केमिकल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 474/560/76225/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्डस्पेक केमिकल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चिन्तन ऑरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 593 /560/81007/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चिन्तन ऑरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फलैक्सीपैक केमिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 586/560/80934/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फलैक्सीपैक केमिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रधान मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 558/560/80857/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रधान मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रिगेन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 530/560/80244/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिगेन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सारीगम डॉयकैम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 543/560/80574/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स सारीगम डॉयकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मार्क मकीन्टोश फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 522/560/80152/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मार्क मकीन्टोश फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रेमिनस्टोन केमिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 513/560/80123/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेमिनस्टोन केमिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लासन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 47/560/60495/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लासन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वृषभ केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 44/560/59479/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वृषभ केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स के. गोसालीया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 39/560/59249/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के. गोसालीया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स निशाल केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 34/560/59202/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निशाल केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुप्राटीक डायस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 59/560/61387/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि मैसर्स सुप्राटीक डायस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डिसेन्ट डाय-केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 56/560/61358/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिसेन्ट डाय-केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राजेश पेस्टीसाईड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 76/560/61696/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजेश पेस्टीसाईड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ट्रायफर्नस् इसेन्सीयल ऑयल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 132/560/63988/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रायफर्नस् इसेन्सीयल ऑयल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रिन्की केमिकल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 148/560/66078/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिन्की केमिकल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओपेक्स ग्रॉफिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 160/560/66744/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओपेक्स ग्रॉफिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तेज एसिड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 194/560/70457/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तेज एसिड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मिनाक्षी एसिड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 203/560/71379/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स मिनाक्षी एसिड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मे केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 215/560/72086/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मे केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पुत्तुर केमिकल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 249/560/75205/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पुत्तुर केमिकल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री अष्टविनायक सोलवेन्ट इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 278/560/75476/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री अष्टविनायक सोलवेन्ट इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बागवे एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 57/560/057619/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बागवे एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हर्बर्ट एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 69/560/073632/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हर्बर्ट एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आयोजन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 79/560/045202/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आयोजन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जगन्नाथ गणेशराम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 102/560/124016/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स जगन्नाथ गणेशराम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बालमो एग्रो केमिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 116/560/066715/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बालमो एग्रो केमिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स लोकमंगल प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 148/560/065535/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लोकमंगल प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पैन-लक्ष्मी सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 159/560/075030/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैन-लक्ष्मी सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स देवगिरी पोल्ट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 165/560/059871/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स देवगिरी पोल्ट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सूर्या हॉट सिप टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 168/560/092500/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सूर्या हॉट सिप टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स हितेशी एग्रो डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 172/560/083408/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हितेशी एग्रो डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स दक्षिण एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 45/560/096177/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स दक्षिण एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स धन्धानिया एग्रो एण्ड हॉर्टीकल्चर डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 76/560/064064/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स धन्धानिया एग्रो एण्ड हॉर्टीकल्चर डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सुरालोक फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 86/560/104135/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुरालोक फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स नीलकुम्भ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 99/560/071199/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नीलकुम्भ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एवरग्रीन वुडस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 66/560/095808/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एवरग्रीन वुडस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मोरारजी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 34/560/008888/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोरारजी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डानो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 111/560/095049/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डानो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रचना कॉन्टैक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 106/560/103731/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स रचना कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सालगांवकर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 120/560/103736/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सालगांवकर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मैगनम सौरभ इन्फिन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 128/560/103739/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैगनम सौरभ इन्फिन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जीएसएस एडवॉयजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 148/560/108012/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जीएसएस एडवॉयजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्यामा हर्बल कास्मेटिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 136/560/103774/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्यामा हर्बल कास्मेटिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एकता गोट फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 22/560/116850/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एकता गोट फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सेवा एन्वायरनमेन्टल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 25/560/114589/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेवा एन्वायरनमेन्टल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बिम एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 13/560/119429/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स बिम एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चानहिल फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 25/560/114874/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चानहिल फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री गणेश फर्टिलाइजर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 31/560/068679/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री गणेश फर्टिलाइजर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नर्बदा मल्टीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 37/560/133227/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नर्बदा मल्टीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विदर्भ पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 46/560/048542/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विदर्भ पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हरिकेन एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 397/560/104110/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हरिकेन एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अवेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 681/560/103812/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अवेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वसन्त आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 212/560/103843/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स वसन्त आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सम्मित सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 687/560/103853/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सम्मित सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स यश कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 177/560/103863/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यश कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वसुमती एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 28/560/117561/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वसुमती एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स लक्ष्मी एग्रो इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 31/560/019463/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लक्ष्मी एग्रो इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्राइम मूवर्स फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 40/560/029141/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्राइम मूवर्स फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बेरार होटीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 247/560/110070/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेरार होटीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रामेश्वर कृषि विकास प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 19/560/120749/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स रामेश्वर कृषि विकास प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ग्रीन पार्श्वर्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 370/560/073244/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रीन पार्श्वर्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आदिती मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 80/560/128041/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आदिती मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अनिल सेमी-कन्डक्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 139/560/35647/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनिल सेमी-कन्डक्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फ्रूफो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 168/560/14066/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्रूफो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अलकेमिस्ट एडीबल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 176/560/15059/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलकेमिस्ट एडीबल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अतुल ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 163/560/12815/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अतुल ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्प्रॉयसेस पूअर (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 184/560/17149/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

ws-7-186/GI/2008-H-1-

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री अम्बाजी पलवरसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 74/560/54476/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री अम्बाजी पलवरसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अजिंक्या मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 108/560/60479/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अजिंक्या मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अक्मे ऑडसोरवेन्ट मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 117/560/47563/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अक्मे ऑडसोरवेन्ट मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुमन प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 11/560/97584/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि मैसर्स सुमन प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डहाणू स्ट्राबोर्ड वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 161/560/9343/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डहाणू स्ट्राबोर्ड वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 165/560/14058/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोपालकृष्ण पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 168/560/17731/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोपालकृष्ण पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शाही पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 172/560/18111/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शाही पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 175/560/18512/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शंक कोरूगेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 33/560/110511/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शंक कोरूगेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई कृपा प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 29/560/105000/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स साई कृपा प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सैम पल्प एण्ड पेपर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 25/560/100291/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सैम पल्प एण्ड पेपर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नोवा कोटिंग इन्टरमीडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 52/560/61175/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोवा कोटिंग इन्टरमीडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कक्कर केम ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 119/560/63435/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कक्कर केम ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फौना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 489/560/77605/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फौना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नूकेम ओर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 481/560/76426/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नूकेम ओर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वास्को फिशरीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 388/560/57067/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वास्को फिशरीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अजिंक्य सर्विसेस एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मुंबई-400002, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 19/560/102515/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अजिंक्य सर्विसेस एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टेली नेट कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16622/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेली नेट कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सतकिर्ती प्रोपरटीज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-54911/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सतकिर्ती प्रोपरटीज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पुणे फोर्जिंग कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-6495/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पुणे फोर्जिंग कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डायना शुगरटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./65209/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डायना शुगरटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओम मेटलफॉर्म टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-12935/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओम मेटलफॉर्म टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेटको क्रीमीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-55253/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेटको क्रीमीस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शायका डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-12930/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शायका डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स युगाडी प्रोपरटीज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-54898/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स युगाडी प्रोपरटीज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एनआरए क्लब्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-12963/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एनआरए क्लब्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेटल जंक्शन कॉम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14936/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेटल जंक्शन कॉम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भाटघर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14304/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भाटघर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पूना पुच प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14939/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पूना पुच प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स होलिस्टिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14305/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होलिस्टिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ड्रीमहर जंक्शन कॉम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14937/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ड्रीमहर जंक्शन कॉम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मंगलम केबल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14306/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मंगलम केबल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओरिजिन इनफो टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14316/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरिजिन इनफो टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स केशर घायल लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14813/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केशर घायल लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पेंटागोन एक्सपोर्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14812/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पेंटागोन एक्सपोर्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ए टी इस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14816/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए टी इस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अविनाश कानडे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14818/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अविनाश कानडे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टी. जी. कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14817/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टी जी कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुनीता घायल रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14815/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुनीता घायल रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डनफोर्ड सोल्युशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14218/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डनफोर्ड सोल्युशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फोर्टन सॉफ्ट-टेल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14823/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फोर्टन सॉफ्ट-टेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पद्मावती एंजोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14271/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पद्मावती एंजोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अमोल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14235/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमोल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री अथर्व ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14283/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री अथर्व ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सिमकेप हाइटेक कंपोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14284/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिमकेप हाइटेक कंपोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स टेक्नोक्विस्ट इनफोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16836/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेक्नोक्विस्ट इनफोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री कंप्यूसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14289/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री कंप्यूसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आदित्य सेफ्टी सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16840/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आदित्य सेफ्टी सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स महेश बेंजो त्री केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-14302/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महेश बेंजो त्री केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स चिनोय ऑटोकोम्प प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-13566/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चिनोय ऑटोकोम्प प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिव दत्ता केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-13619/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिव दत्ता केमिकल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्लोडेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-13691/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्लोडेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एंडवेंट बिजनेस क्रेडिट डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-13641/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एंडवेंट बिजनेस क्रेडिट डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साऊंड ऑफ म्यूजिक (पुणे) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-13644/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साऊंड ऑफ म्यूजिक (पुणे) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पद्मा नंदिनी एंग्रीकल्चर एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-17513/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पद्मा नंदिनी एंग्रीकल्चर एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राज कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16781/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राज कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोल्डन रॉक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16785/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोल्डन रॉक रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चैत्राली सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16795/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चैत्राली सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रापिद मल्टीमार्केट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16793/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रापिद मल्टीमार्केट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पद्मालय प्लॉस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16797/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पद्मालय प्लॉस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हर्षल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16801/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हर्षल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आकियो कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./25-16815/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आकियो कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्रैंश फोर्स बिजनेस सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16820/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्रैंश फोर्स बिजनेस सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ऐवरीडे आयुर्वेद प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16828/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऐवरीडे आयुर्वेद प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स 'सी' नेट नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16831/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स 'सी' नेट नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्वास्तिक कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयरहाऊस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16839/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वास्तिक कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयरहाऊस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जासा मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-59433/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जासा मिनटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तानिया टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13936/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तानिया टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रिसर्च टेक्नोलॉजिस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14543/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिसर्च टेक्नोलॉजिस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई कृपा लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16853/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई कृपा लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शंगरीला शैल्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13977/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शंगरीला शैल्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आकार एक्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14521/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आकार एक्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फोनिक्स शेयर्स एण्ड स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14511/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फोनिक्स शेयर्स एण्ड स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चाकन ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14510/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चाकन ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वैल्सस्प्रिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14498/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वैल्सस्प्रिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रिमियम पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-59453/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रिमियम पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रीन फ्रुटोला फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-59467/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीन फ्रुटोला फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गामाविजन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13883/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गामाविजन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स निहाल टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13928/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निहाल टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पीएमएस प्रिंसीजन मोटर कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13932/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पीएमएस प्रिंसीजन मोटर कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शार्प हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13934/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शार्प हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शरोन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13935/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शरोन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रीन (इंडिया) मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13949/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीन (इंडिया) मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डीआरआरबी चुटके होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13959/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डीआरआरबी चुटके होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मीरा टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13926/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मीरा टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पॉवर स्ट्रक्चर्स एण्ड कंट्रोल इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-55725/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पॉवर स्ट्रक्चर्स एण्ड कंट्रोल इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स झीना-प्रदीना एग्रोप्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12637/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स झीना-प्रदीना एग्रोप्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नेटिव मार्केटिंग इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12616/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेटिव मार्केटिंग इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पुजारी टूलस संघ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15456/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पुजारी टूलस संघ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बापजी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14753/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बापजी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इट कॉमसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14758/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इट कॉमसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनोस ईवेन्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15426/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनोस ईवेन्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फार्मा रिटेलर्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16135/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फार्मा रिटेलर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रेनुका कैबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12688/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेनुका कैबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हैपी होम एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14233/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हैपी होम एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पूना स्टोक एण्ड सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-15459/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पूना स्टोक एण्ड सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सॉफ्टोरिया इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15458/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सॉफ्टोरिया इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पॉवरमाटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15466/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पॉवरमाटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रुप इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15464/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रुप इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वल्टर्वाइज बिजनेस सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15437/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वल्टर्वाइज बिजनेस सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एमएसएम सिव्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14736/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एमएसएम सिव्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तपोला महाबलेश्वर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14721/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तपोला महाबलेश्वर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टीम वर्क प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14722/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टीम वर्क प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एसआरएस थरमिट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13632/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एसआरएस थरमिट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जुटीडा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12949/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जुटीडा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नेपी केबल्स एण्ड अलॉयड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-59612/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेपी केबल्स एण्ड अलॉयड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिवानी पाईप इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13450/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिवानी पाईप इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अनुष्का फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-54352/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनुष्का फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बारोन सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13451/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बारोन सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अंबर रियलिटी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16838/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अंबर रियलिटी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स केशवचर्य स्वामी अभियांत्रिकी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15434/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केशवचर्य स्वामी अभियांत्रिकी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अश्वमेघ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14761/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अश्वमेघ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्रीनाथ इंजीनियरिंग एण्ड वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15424/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीनाथ इंजीनियरिंग एण्ड वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिलग्रुफ प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-49210/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिलग्रुफ प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कदम ब्रदर्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14949/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कदम ब्रदर्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स होम ट्रेड वन लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16263/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होम ट्रेड वन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राशि कृषि प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13843/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राशि कृषि प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नेटपुल्स टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14941/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेटपुल्स टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जाक रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13623/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जाक रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओरिजीन आईटी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14728/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरिजीन आईटी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मर्करी माईक्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14828/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मर्करी माईक्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अवंती रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16913/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अवंती रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स संत इन्फोटेक लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14729/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संत इन्फोटेक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टेक्नोसॉफ्ट एन. जी. लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16120/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेक्नोसॉफ्ट एन. जी. लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नवकोकण फूड एण्ड फ्रूट इंडिया लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16191/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नवकोकण फूड एण्ड फ्रूट इंडिया लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई हाई-वे मोटेल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-50826/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई हाई-वे मोटेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ऋग्वेदा टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16889/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऋग्वेदा टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री दत्त शेतकारी साखर कारखाना लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13281/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री दत्त शेतकारी साखर कारखाना लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पी.आर.वी इलैक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12852/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पी.आर.वी इलैक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिमार कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12833/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिमार कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोंदिल फाऊंडरी एस. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-52731/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोंदिल फाऊंडरी एस. प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेब्रो मिनरल फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15601/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हेब्रो मिनरल फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स परमज्योत प्रमोशन मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15518/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स परमज्योत प्रमोशन मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डी. एम. एस. कंट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15538/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. एम. एस. कंट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डिस्कवर टेक्नोलॉजिस लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15549/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डिस्कवर टेक्नोलॉजिस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कैलमस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13522/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैलमस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स संतोष गिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15575/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संतोष गिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रेस फैब्रीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-53890/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रेस फैब्रीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुप्रा इन्फोसिस लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14132/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुप्रा इन्फोसिस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अल्ट्रामैटिक्स टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-54076/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्ट्रामैटिक्स टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गुने इरीगेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14132/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुने इरीगेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अन्नपुर्णा आशुतोष होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15487/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अन्नपुर्णा आशुतोष होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेब साईट टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14769/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेब साईट टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सगुणामाता कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15494/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सगुणामाता कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सैम साफ्टवेयर विनेचरर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14747/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सैम साफ्टवेयर विनेचरर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बालाजी अडहेसिव टेप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13995/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बालाजी अडहेसिव टेप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम. एस. पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13998/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एम. एस. पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मिशन इवेन्ट मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15469/560(3)/एडीके/1133--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मिशन इवेन्ट मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एयरवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14770/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एयरवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पद्मश्री हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15479/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पद्मश्री हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15484/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साई डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कमल फ्लेक्स पैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14950/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कमल फ्लेक्स पैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. के. टी. कार्मशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14778/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. के. टी. कार्मशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सिलिकॉन सॉफ्टवेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14793/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिलिकॉन सॉफ्टवेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स नीरा व्हीली एग्री इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14765/560(3)/एडीके/1137--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीरा व्हीली एग्री इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सनमित्रा कृषि उद्योग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14796/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनमित्रा कृषि उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स तिरूमलाई इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14755/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तिरूमलाई इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स हनुमान साखर कारखाना लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14788/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हनुमान साखर कारखाना लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स मेट्रो ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14529/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेट्रो ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स नंदन मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13988/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नंदन मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स फेंग शुई डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15429/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फेंग शुई डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स कडोनिक्स इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14136/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कडोनिक्स इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स काजोले डेवलपर्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15444/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स काजोले डेवलपर्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स श्री साईकृष्ण बायोफर्टीलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13516/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री साईकृष्ण बायोफर्टीलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स कौशिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13517/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कौशिक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स ताजस निट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14481/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ताजस निट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स महातपास इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13508/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महातपास इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स नवनी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14754/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नवनी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स डेविस स्टेण्डर्ड प्लास्टिक्स एक्सट्रुशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14432/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेविस स्टेण्डर्ड प्लास्टिक्स एक्सट्रुशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स पुणेटीम विजन कोम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16854/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पुणेटीम विजन कोम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स एटकोंन एग्रो-टेक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16844/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एटकोंन एग्रो-टेक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स सेलिब्रेटी हिल्स गोल्फ क्लब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14407/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेलिब्रेटी हिल्स गोल्फ क्लब प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स ओरियन्टल बैंक सर्वेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15490/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरियन्टल बैंक सर्वेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स हंसराज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12830/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हंसराज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स चतुर्वेदेश साखर कारखाना लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14514/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चतुर्वेदेश साखर कारखाना लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स यशोमाला इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13439/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स यशोमाला इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सच लेबेन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16088/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सच लेबेन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स एस. आर. शिंदे ब्रादर्स शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13399/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. आर. शिंदे ब्रादर्स शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स फोनिक्स पब्लिकेशन्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16058/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फोनिक्स पब्लिकेशन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सतारा स्पोर्ट्स एंड क्लब्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13396/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सतारा स्पोर्ट्स एंड क्लब्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स वोवेन्टेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13670/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वोवेन्टेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स देवधरी साखर कारखाना लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13678/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स देवधरी साखर कारखाना लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स कॉनकोर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13425/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कॉनकोर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स कमल एग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13241/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कमल एग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स त्रिवेणी संगम शुगर मिल्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13215/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स त्रिवेणी संगम शुगर मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सोबर स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13248/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोबर स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सैनसेक ओर्थो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13226/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सैनसेक ओर्थो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स चेन्ज रि-इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14605/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चेन्ज रि-इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स निहॉन अप्पेरल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13721/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निहॉन अप्पेरल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स वेदकेम कम्पोजिशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13884/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेदकेम कम्पोजिशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स वाघभट आयुर्वेद निकेतन लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13269/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वाघभट आयुर्वेद निकेतन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स होटल सालुंखे प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13355/560(3)/एडीके/1175--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स होटल सालुंखे प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स अल्लीसन ब्रादर्स टूंस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-12923/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्लीसन ब्रादर्स टूंस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स वरद कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-17373/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वरद कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स नेचरनीड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-17368/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेचरनीड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सोनू कैटरिंग लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14140/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोनू कैटरिंग लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स डी. एस. वाई. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-17167/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डी. एस. वाई. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स आनंद मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-17439/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आनंद मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स वेस्टमाउंट कैपिटल एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16349/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेस्टमाउंट कैपिटल एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स ओरिएण्टल इन्फोकेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-17060/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरिएण्टल इन्फोकेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स शरदिया सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15493/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शरदिया सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स पोल्ट्री फील्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/11-48100/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पोल्ट्री फील्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स हनुमंत एग्रो एण्ड आयल एक्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-17070/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हनुमंत एग्रो एण्ड आयल एक्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स हरबिको फार्मा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15134/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हरबिको फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स तोरणा हिलस्टेशन्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14953/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तोरणा हिलस्टेशन्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स राज सॉफ्ट-टेक टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14357/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राज सॉफ्ट-टेक टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स मयूरेश्वर डेयरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16884/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मयूरेश्वर डेयरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सन सॉफ्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15407/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सन सॉफ्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स कुसुम कोन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13597/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुसुम कोन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स साईटेक बिजनेसलिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15418/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साईटेक बिजनेसलिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सनराईज वैली रिसोर्ट्स एण्ड डेवलपर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-14967/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनराईज वैली रिसोर्ट्स एण्ड डेवलपर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स तोलीमान इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13985/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तोलीमान इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सेल-वेव कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-13984/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेल-वेव कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स लाईफ एण्ड होप इंटरनेशनल फाऊंडेशन के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16266/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लाईफ एण्ड होप इंटरनेशनल फाऊंडेशन का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स आनंद ऋषिजी साखर कारखाना लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16429/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आनंद ऋषिजी साखर कारखाना प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स अपना टेलीकाम्युनिकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-16992/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपना टेलीकाम्युनिकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स सिन्धुदुर्ग जिला शुगर एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी/25-15800/560(3)/एडीके--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिन्धुदुर्ग जिला शुगर एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 24th July 2008

No. DP/PERS. I/2008/118/3/24/2008/Pers. I—The Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri M. S. S. Sitapati Rao, Crime Assistant, CBI to the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 09.07.2008.

M. SACHIDEV
Administrative Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 17th July 2008

No. E-28017/1/Noti/2008/Pers-II/1042—Consequent upon voluntary retirement under Rule-48A of CCS (Pension) Rules, 1972 and retirement from Govt. Service on attaining the age of superannuation, the following CISF officers had relinquished the charge of the post from the date and unit/HQrs as shown against each :—

Sl. No.	Name of the Go's	Post Held	Date	Unit
	S/Shri/Smt.			
1.	D. S. Murdeshwar (Voluntary)	DIG	03.07.208 (FN)	CISF, NEZ, HQrs, Kolkata
2.	Anil Mithal (Superannuation)	Commandant	30.06.08 (AN)	CISF, RTC, Bhilai
3.	P. D. Burman (Superannuation)	Commandant	30.06.08 (AN)	CISF, 3rd RB, Bhilai
4.	B. N. Kharkwal (Superannuation)	Assistant Commandant	30.06.08 (AN)	CISF Unit GBS New Delhi
5.	G. D. Choure (Superannuation)	Assistant Commandant/JAO	31.05.08 (AN)	CISF Unit BSP Bhilai

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500 004, the 21st July 2008

No. AG (A&E)/Admn. I/1/8-88/2008-09/84 —Accountant General (A&E), A. P., Hyderabad is pleased to promote the under mentioned Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates shown against their names.

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A. O.
1.	Shri Avadh Nath Rai	01.07.2008 F. N.
2.	Shri M. A. Muneer Khan	03.07.2008 F. N.

The promotion orders are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 22nd July 2008

No. Au./Admn. III/9-1/Vol. II—The following Audit Officers have been promoted as Senior Audit Officers in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	R. Radhakrishnan	01.01.2008
2.	P. Venugopalan Nair	01.01.2008
3.	K. Thampy Chacko	01.01.2008
4.	V. Madhavan Nampoothiri	01.01.2008
5.	P. G. Sebastian	01.01.2008
6.	R. Thulaseedharan Pillai	01.01.2008
7.	A. A. Kuriakose	01.01.2008
8.	P. S. Ravindran	01.01.2008
9.	A. C. James	01.01.2008
10.	John K. Antony	01.01.2008
11.	Vishnudevi Rajasenan	01.01.2008
12.	Joseph K. Antony	01.01.2008
13.	P. S. Balakrishnan	01.01.2008
14.	V. P. Mathew	01.01.2008
15.	P. V. Sankaran Unni	14.02.2008
16.	P. V. Suseela Antharjanam	15.02.2008

P. UNNIKRISHNAN
Dy. Accountant General/Admn.

No. Au./Admn. III/9-1/Vol. II—The following Assistant Audit Officers have been promoted as Audit Officers in the

scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	Joseph Sebastian	03.07.2007
2.	C. Asok	04.07.2007
3.	P. Antony James	02.08.2007
4.	S. Rajendra Prasad	03.09.2007
5.	M. G. Raveendran	03.09.2007
6.	R. Mohanachandran	01.10.2007
7.	O. K. Radhakrishnan Nair	01.10.2007
8.	K. Jayaprakash	01.10.2007
9.	P. G. Nalinakshi	01.10.2007
10.	V. Viswanadh	01.10.2007
11.	K. R. Muralidharan	01.10.2007
12.	V. S. Radhakrishnan Nair	01.11.2007
13.	S. Vijayakumari	03.12.2007
14.	C. Gopalan	05.12.2007
15.	K. P. Narayanankutty	05.12.2007
16.	P. M. Krishnan	01.01.2008
17.	Roy Sukumaran	01.01.2008
18.	C. Syamaladevi Amma	01.01.2008
19.	D. S. Remakrishnan	01.02.2008
20.	Joseph George	03.03.2008
21.	A. K. Keralavarman	03.03.2008
22.	P. Sathy	03.03.2008
23.	A. Subramonian	03.03.2008
24.	R. Surendran	03.03.2008
25.	George Oommen	01.05.2008
26.	P. M. Mathew	01.05.2008
27.	O. T. Madhava Menon	01.05.2008
28.	V. P. Gopalakrishnan	01.05.2008
29.	B. Vijayakumar (No. 3)	01.05.2008

1	2	3
	S/Shri/Smt.	
30.	P. Koya	01.05.2008
31.	P. G. Janardanan Nair	02.06.2008
32.	P. M. Usha	02.06.2008
33.	G. Srinivasa Rao	02.06.2008
34.	A. Venugopalan	02.06.2008
35.	Jameskutty Cyriac	02.06.2008
36.	T. M. Mohanan	02.06.2008
37.	K. Gopalakrishnan	02.06.2008
38.	P. M. Vasudevan	02.06.2008
39.	V. D. Vijayakumar	02.06.2008
40.	A. M. Shahnavas	02.06.2008

P. UNNIKRISHNAN
Dy. Accountant General/Admn.

No. Au./Admn. III/9-1/Vol. II—The following Section Officers have been promoted as Asstt. Audit Officers in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	G. Girija	01.01.2008
2.	V. Mohandas	01.01.2008
3.	Lionel Francis Jesson	01.01.2008
4.	G. Krishnamoorthy	01.01.2008
5.	V. Narayanankutty	01.01.2008
6.	K. Gigo Bastian	01.01.2008
7.	Jose Mathew (No. 2)	01.01.2008
8.	R. Jayadeep	01.01.2008
9.	S. R. Reshmi	14.02.2008
10.	S. Syam	14.02.2008
11.	S. Lakshmy	14.02.2008
12.	S. Mohanachandran Nair	19.03.2008
13.	Shibi Benny	19.03.2008

1	2	3
	S/Shri/Smt.	
14.	D. Rajendran	19.03.2008
15.	S. Gopakumar	19.03.2008
16.	L. Sivakumar	19.03.2008
17.	K. V. Suresh Kumar	19.03.2008
18.	M. P. Hamza	19.03.2008
19.	Lija Varghese	19.03.2008
20.	C. V. Hema	31.03.2008
21.	Binoj C. Varghese	31.03.2008

P. UNNIKRIISHNAN
Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 24th July 2008

No. O. E/E & C/EIVP/72—The following officials of
IA&AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. Elizabeth Cherian	Sr. Dy. Accountant General Main Office, Trivandrum	30.06.2008 (AN) (Super-annuation)
2.	Smt. K. Sreekumari Amma	Asstt. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	30.06.2008 (AN) (Super-annuation)

K. VIJAYKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR
HANDLOOMS

New Delhi, the 24th July 2008

No. 32012/1/2008-DCH/Estt-I—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority is pleased to appoint Shri Navnit Sharma as Assistant Director Grade-II on promotion basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 13th February, 2007 in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles.

S. K. JHA
Addl. Development Commissioner for Handlooms

No. 32012/1/2008-DCH/Estt-I—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee the Competent Authority is pleased to appoint Shri Tapas Sarkar as Assistant Director Grade-II on promotion basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 13th February, 2007 in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles.

S. K. JHA
Addl. Development Commissioner for Handlooms

No. 32012/1/2008-DCH/Estt-I—Consequent upon re-designation of the post of Office Superintendent (Group "B" Non-Gazetted) as Assistant Director Grade-II (Group "B" Gazetted), the Competent Authority is pleased to appoint, the incumbent Shri S. Chowdhury holding the post, as Assistant Director Grade-II in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the date of re-designation of post i.e. 11th August, 2003 (FN) in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles.

S. K. JHA
Addl. Development Commissioner for Handlooms

No. 32012/1/2008-DCH/Estt-I—Consequent upon re-designation of the post of Office Superintendent (Group "B" Non-Gazetted) as Assistant Director Grade-II (Group "B" Gazetted); the Competent Authority is pleased to appoint, the incumbent Shri Deep Chand holding the post, as Assistant Director Grade-II in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the date of re-designation of post i.e. 11th August, 2003 (FN) in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles.

S. K. JHA
Addl. Development Commissioner for Handlooms

No. 32012/1/2008-DCH/Estt.-I—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee the Competent Authority is pleased to appoint Shri N. Purushothaman as Assistant Director Grade-II on promotion basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 19th October, 2005 in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles.

S. K. JHA
Addl. Development Commissioner for Handlooms

MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION
DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION,
QUARANTINE & STORAGE

Faridabad-121001, the 22nd July 2008

No. 7-9/2008-Adm. I—Plant Protection Adviser to the Govt. of India has appointed Shri Anil Sehajpal to the post of Plant Protection Officer (Plant Pathology) (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on deputation basis with effect from the 16th June, 2008 in the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, Faridabad.

H. C. RUSTAGI
Under Secy. (HQ)

The 24th July 2008

No. 7-12/2008-Adm. I—Plant Protection Adviser to the Govt. of India has appointed Miss D. T. Bhambhani, Office Supervisor (P. Scale : Rs. 5,500—9,000/-) to the post of Administrative Officer (Grade II) (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on promotion basis with effect from the 9th May, 2008 in the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, Faridabad.

H. C. RUSTAGI
Under Secy. (HQ)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 15th July 2008

No. PD/2(4)/2007/R-IV/6119—The President is pleased to appoint Shri Shaiju V. S., as Scientific Officer grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 9th May, 2008 until further orders.

N. D. SHARMA
Controller

The 16th July 2008

No. PD/2(10)/2006/R-IV/6109—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar as Scientific Officer grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 15th April, 2008 until further orders.

N. D. SHARMA
Controller

The 21st July 2008

No. PD/2(10)/2006/R-IV/6307—The President is pleased to appoint Shri Sabavat Kishan as Scientific Officer grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 27th June, 2008 until further orders.

N. D. SHARMA
Controller

Mumbai-85, the 10th June 2008

No. PD/2(04)/2007/R-IV/4832—The President is pleased to appoint Dr. Sridvi Sitaraman as Scientific Officer grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-+NPA in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 11th April, 2008 until further orders.

S. G. MARKANDEYA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 17th July 2008

No. 7/2(6)/2005-SUS/4395—The President is pleased to appoint Shri Suman Babu Mudulakar as Scientific Officer/Engineer Grade "C" on an initial pay of Rs. 8,000/- in the Directorate of Construction Services and Estate Management of this Department in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 17.06.2008 (FN) until further orders.

D. SURENDRAN
Officer on Special Duty

No. 7/2(6)/2005-SUS/4396—The President is pleased to appoint Shri Anshuman Shukla as Scientific Officer/Engineer Grade "C" on an initial pay of Rs. 8,000/- in the Directorate of Construction Services and Estate Management of this Department in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 18.06.2008 (FN) until further orders.

D. SURENDRAN
Officer on Special Duty

Mumbai-400 001, the 21st July 2008

No. 18/1/6/2008/ER/2914—The President is pleased to extend the tenure of appointment of Shri Surendra Kumar Sharma as Chairman, Atomic Energy Regulatory Board for a period upto 13.01.2010 or until further orders, whichever is earlier.

O. T. G. NAIR
Under Secy

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND
ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 21st July 2008

No. DCSEM/A/2(64)/2001-Rectt./Vol. III/464—The Director, Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Smt. Veena Padhye, Junior Hindi Translator in the scale of pay of Rs. 5,500-175-9,000/- in Directorate of Construction, Services and Estate Management, DAE as Assistant

Director (Official Language) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- on ad hoc basis in DCSEM with effect from 13.05.2008 (FN) to 13.06.2008 (AN) against the leave vacancy of Shri Narsingh Ram, Assistant Director (Official Language), DCSEM.

G. S. MATHEW
Admin. Officer-III

No. DCSEM/A/2(64)/2001-Rectt./Vol. III/454—Director, Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Shri C. N. Kuchekar, Assistant Security Officer (A) in the scale of pay of Rs. 5,000-150-8,000/- in Directorate of Construction, Services and Estate Management, DAE as Security Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad hoc basis in DCSEM with effect from 21.04.2008 (FN) to 06.06.2008 (AN) against the leave vacancy of Shri Paul Mathew, Security Officer, DCSEM.

G. S. MATHEW
Admin. Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 23rd July 2008

No. NFC/PAR. II/2-2008/194—Chief Executive, NFC appoints the undermentioned Scientific Assistants Grade 'C' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the Grade of Scientific Officer/Engineer 'SB' (Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/-) with effect from 01.02.2008 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :

Sl. No.	Name
1.	Shri R. Somaiah
2.	Smt. K. Radhika
3.	Shri B. N. V. R. K. Gupta

A. S. LAKSHMAN RAO
Admin. Officer-III

MINISTRY OF WATER RESOURCES CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 24th July 2008

No. 3-1602/2008/Engg. Estt. 4309—On the recommendation of the UPSC Sh. Sanjiv Kumar, Birendra Kumar Baiskhiyar is appointed to the post of Driller-in-Charge Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity in the Central Ground Water Board, Division-XII, Bhopal w.e.f. 29.06.2007 (FN).

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

S. K. SINHA
Director (Administration)

No. 8-20/2006-Engg. Estt/4312—On the recommendation of the DPC (Group 'B' Gazetted), the following officers have been promoted to the post of Driller-in-Charge Group 'B' (Gazetted) in pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown as under :—

Sl. No.	Name of the Officers	Place of posting	Date of joining
1.	Sh. R. C. Rabha	Div. VII, Guwahati	28.04.08
2.	Sh. S. Adaiah	Div. XIV, Bangalore	09.05.08

They will be on probation for a period of two years from the date of their joining which can be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

S. K. SINHA
Director (Administration)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Malviya Builders Private Limited

Jaipur, the 31st March 2008

No. ROC/JPR/560/7557/385—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Malviya Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Warriors Security Services Private Limited

Jaipur, the 9th July 2008

No. ROC/JPR/560/17747/1052—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s. Warriors Security Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arasuri Metal and Chemicals Private Limited

Jaipur, the 16th July 2008

No. ROC/JPR/560/9136/1106—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arasuri Metal and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Bajrang Bali Marmo Private Limited

Jaipur, the 22nd July 2008

No. ROC/JPR/560/17615/1157—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Bajrang Bali Marmo Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sujla Granite and Marble Private Limited

Jaipur, the 25th July 2008

No. ROC/JPR/560/6198/1190—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sujla Granite and Marble Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 22nd July 2008

No.ROC/PAT/560(5)/1216—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved:—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1.	4392	M/s. Caput Savings & Finance India Private Limited.
2.	9958	M/s. Ambrosia Health Care Private Limited.
3.	5990	M/s. Timex Hire-Leasing & General Finance Limited.

K. S. PRADHAN
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dillai Valley Woodcrafts Private Limited

Shillong-793 001, the 21st July 2008

No. NL 002346 of 2008—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dillai Valley Woodcrafts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SWADHIN BARUA
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maharashtra Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 27/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maharashtra Granites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shamrock Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 10/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shamrock Granites Private Limited

has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elixir Granite Exports (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 6/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elixir Granite Exports (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suhetessa Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 16/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suhetessa Granites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vidyeshwari Paper Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 65/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vidyeshwari Paper Mills Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. K. Corporate Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 170/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. S. K. Corporate Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhiwandiwalla Container Freight Station Uran
Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 291/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhiwandiwalla Container Freight Station Uran Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhadrabahu Securities Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 285/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhadrabahu Securities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jija Mata Agros Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 279/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jija Mata Agros Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeans Care Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 264/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Jeans Care Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samradh Financial Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 261/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Samradh Financial Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tript Engineers Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 75/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tript Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rainbow Vinyl Flooring Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 84/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rainbow Vinyl Flooring Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eurisko Capital Options Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 97/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Eurisko Capital Options Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anchor Petro-Chem Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 119/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anchor Petro-Chem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Myriad Electronics Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 389/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Myriad Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yogeshwari Manufacturing and Trading Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 50/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yogeshwari Manufacturing and Trading Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dasmesh Granite Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 184/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Dasmesh Granite Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 168/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Western Granites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tasco Marmo (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 160/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tasco Marmo (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mirror Marble Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 404/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mirror Marble Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Summit Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 408/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Summit Granites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samyak Stone Crushers Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 431/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Samyak Stone Crushers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ranesh Texstone Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 62/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ranesh Texstone Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Robust Granites Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 65/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Robust Granites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Genexxt Infrasyt Private Limited

Mumbai-400 002, the 27th February 2008

No. 68/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Genexxt Infrasyt Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amul Capital Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 275/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amul Capital Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhijeet General Finance and Investment Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 264/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Abhijeet General Finance and Investment Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suswani Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 409/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suswani Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trinity Park Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 335/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Trinity Park Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kundam Agro Processors Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 225/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kundam Agro Processors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nidhi Jewellery Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 421/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nidhi Jewellery Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rapport Finvest Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 323/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rapport Finvest Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Blend Fintrade Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 316/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Blend Fintrade Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Badhe Chemicals and Ceramics Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 693/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Badhe Chemicals and Ceramics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tristar Dye-Chem Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 696/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tristar Dye-Chem Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Chakra Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 614/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jai Chakra Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaan Clay Coaters Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 98/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Kaan Clay Coaters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indspec Chemical Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 474/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indspec Chemical Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chintan Organics Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 593/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chintan Organics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Flexipack Chemicals India Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 586/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flexipack Chemicals India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pradhan Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 558/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Pradhan Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Regain Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 530/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Regain Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarigam Dyechem Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 543/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarigam Dyechem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mark Mackintosh Filters Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 522/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mark Mackintosh Filters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Reminstone Chemicals (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 513/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Reminstone Chemicals (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lasan Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 47/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lasan Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vrishabh Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 44/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vrishabh Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K Gosalia Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 39/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K Gosalia Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nishal Chem Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 34/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Nishal Chem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supratik Dyes Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 59/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supratik Dyes Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Decent Dye-Chem Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 56/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Decent Dye-Chem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajesh Pesticides Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 76/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajesh Pesticides Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Triferns Essential Oils and Chemicals
Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 132/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Triferns Essential Oils and Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rinki Chemicals and Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 148/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rinki Chemicals and Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Opex Graphic Systems Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 160/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Opex Graphic Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tej Acids Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 194/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tej Acids Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Minaxi Acids Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 203/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Minaxi Acids Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. May Chemical Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 215/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. May Chemical Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Puttur Chemical Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 249/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Puttur Chemical Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Ashtavinayak Solvent Industries
Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 278/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Ashtavinayak Solvent Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bagwe Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 57/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Bagwe Agrotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Herbert Agro Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 69/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Herbert Agro Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aayojan Agriculture Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 79/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aayojan Agriculture Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagannath Ganeshram Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 102/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jagannath Ganeshram Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balmo Agro Chemical Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 116/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Balmo Agro Chemical Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lokmangal Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 148/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lokmangal Plantations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pan-Laxmi Super Market Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 159/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pan-Laxmi Super Market Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deogiri Poultry Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 165/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deogiri Poultry Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surya Hot Sip Tea Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 168/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Surya Hot Sip Tea Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hiteshi Agro Development Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 172/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hiteshi Agro Development Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dakshin Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 45/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dakshin Agro Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhandhan Agro and Horticulture Development
Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 76/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhandhan Agro and Horticulture Development Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surya Farms and Resorts Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 86/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Suraloka Farms and Resorts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nilkumbh Agro Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 99/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nilkumbh Agro Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Evergreen Woodstock Private Limited

Mumbai-400 002, the 28th February 2008

No. 66/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Evergreen Woodstock Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Morarji Agricultural Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 34/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Morarji Agricultural Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dango Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 111/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Dango Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rachana Contractors and Builders Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 106/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rachana Contractors and Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Salgaonkar Project Management Services
Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 120/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Salgaonkar Project Management Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Magnum Saurabh Infin Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 128/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Magnum Saurabh Infin Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GSS Advisory Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 148/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. GSS Advisory Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shama Herbal Cosmetic Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 136/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shama Herbal Cosmetic Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ekta Goat Farming Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 22/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ekta Goat Farming Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seva Environmental Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 25/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seva Environmental Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bim Agro-Processors Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 136/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Bim Agro-Processors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chanhill Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 25/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chanhill Farm Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ganesh Fertilizer Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 31/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganesh Fertilizer Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Narbada Multiservices Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 37/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Narbada Multiservices Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Warbha Poultry Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 46/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Vidarbha Poultry Farm Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hurricane Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 397/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hurricane Agro Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AVEC Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 681/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. AVEC Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasant Arts Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 212/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vasant Arts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Summit Services and Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 687/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Summit Services and Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yash Castings Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 177/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yash Castings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasumati Agro Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 28/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vasumati Agro Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Agro-Industrial Consultants and Exporters
Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 31/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Laxmi Agro-Industrial Consultants and Exporters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prime Movers Fertilisers and Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 40/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Prime Movers Fertilisers and Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Berar Horticulture Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 247/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Berar Horticulture Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rameshwar Krishi Veekas Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 19/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rameshwar Krishi Veekas Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green-Pastures Consultancy Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 370/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Green-Pastures Consultancy Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditi Minerals Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 80/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Aditi Minerals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anil Semi-Conductor Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 139/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anil Semi-Conductor Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Frufo Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 168/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Frufo Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alchemist Edible Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 176/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alchemist Edible Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Atul Oil Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 163/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Atul Oil Mills Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Spices Pure (Bombay) Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 184/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spices Pure (Bombay) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Halt Marie Foods Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 204/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Halt Marie Foods Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asra Sea-Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 210/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asra Sea-Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Voras Food Specialities Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 231/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Voras Food Specialities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sameer Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 245/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sameer Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Janso Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 255/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Janso Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chirios Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 265/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chirios Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eagle Food Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 154/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Eagle Food Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Ambaji Pulversing Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 74/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Ambaji Pulversing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajinkya Minerals Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 108/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ajinkya Minerals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Acme Adsorbent Minerals Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 117/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Acme Adsorbent Minerals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suman Printers Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 119/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Suman Printers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dahanu Strawboard Works Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 161/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dahanu Strawboard Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Packers Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 165/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Packers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopalkrishna Paper Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 168/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gopalkrishna Paper Mills Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bahl Papers Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 172—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Shahi Papers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Distributors Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 175/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krishna Distributors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shunk Corrugators Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 33/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shunk Corrugators Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Kripa Printers Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 29/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sai Kripa Printers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sam Pulp and Paper India Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 25/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Sam Pulp and Paper India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nova Coating Intermediates Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 52/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nova Coating Intermediates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kakkat Chem Trade Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 119/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kakkat Chem Trade Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fauna Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 489/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fauna Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nukem Organics Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 481/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. Nukem Organics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wasco Fisheries Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 388/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wasco Fisheries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajinkya Savings and Finance Private Limited

Mumbai-400 002, the 29th February 2008

No. 019/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ajinkya Savings and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tele Net Construction Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00018/ADK/1001(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tele Net Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satkirti Property Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00208/ADK/1002(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Satkirti Property Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pune Forgings Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00574/ADK/1003(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pune Forgings Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dyna Sugartech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00139/ADK/1004(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dyna Sugartech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jetco Ceramics (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00191/ADK/1005(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jetco Ceramics (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yugadi Property Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00185/ADK/
1006(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Yugadi Property Developers Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Metalform Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00163/ADK/
1007(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Om Metalform Technologies Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shayka Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00159/ADK/
1008(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shayka Developers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. NRA Clubs and Resorts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00153/ADK/
1009(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. NRA Clubs and Resorts Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Metalsjunction Com India Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00125/ADK/
1010(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Metalsjunction Com India Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poona Puch Plaza Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00124/ADK/
1011(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Poona Puch Plaza Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Driversjunction Com India Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00126/ADK/
1012(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Driversjunction Com India Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhatghar Resorts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00733/ADK/
1013(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Bhatghar Resorts Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Holistic Foods Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00736/ADK/
1014(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Holistic Foods Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mangalam Cable Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00738/ADK/
1015(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mangalam Cable Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Origin Info Tech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00744/ADK/
1016(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Origin Info Tech Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pentagon Exports (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00746/ADK/
1017(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pentagon Exports (India) Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Avinash Kanade Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00749/ADK/
1018(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Avinash Kanade Engineering Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Keshar Ghayal Land Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00752/ADK/
1019(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Keshar Ghayal Land Developers Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. At Estate Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00754/ADK/
1020(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. At Estate Developers Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. TG Constructions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00755/ADK/
1021(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. TG Constructions Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunita Ghayal Resorts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00756/ADK/
1022(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sunita Ghayal Resorts Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fortan Soft-Tel Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00759/ADK/
1023(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Fortan Soft-Tel Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amol Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00708/ADK/
1025(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Amol Developers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Danford Solutions India Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00710/ADK/
1024(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Danford Solutions India Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmavati Agrotech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00712/ADK/
1026(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Padmavati Agrotech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Atharva Trading Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00719/ADK/
1027(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shri Atharva Trading Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Simcap Hitech Components Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00716/ADK/
1028(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Simcap Hitech Components Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Compusoft Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00724/ADK/
1029(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shree Compusoft Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahesh Benzo Tri Chem Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00727/ADK/
1030(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mahesh Benzo Tri Chem Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Technoquest Information Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00026/ADK/
1031(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Technoquest Information Systems Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Safty Services Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00029/ADK/
1032(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Aditya Safty Services Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chinoy Autocomp Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00285/ADK/
1033(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Chinoy Autocomp Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Dutta Chemical Industries Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00348/ADK/
1034(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shiv Dutta Chemical Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Flowdek Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00365/ADK/
1035(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Flowdek Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Advent Business Credit Development Company
Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00369/ADK/
1036(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Advent Business Credit Development Company
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sound of Music (Pune) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00377/ADK/
1037(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sound of Music (Pune) Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padma Nandinee Agricultural and Dairy Products
Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00268/ADK/
1038(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Padma Nandinee Agricultural and Dairy Products
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Computers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00007/ADK/
1039(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Raj Computers Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Rock Resorts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00009/ADK/
1040(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Golden Rock Resorts Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chaitrali Sales and Marketing Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00011/ADK/
1041(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Chaitrali Sales and Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rapid Multimarket Research Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00012/ADK/
1042(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Rapid Multimarket Research Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmalaya Plastics Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00013/ADK/
1043(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Padmalaya Plastics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harshal Travels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00015/ADK/
1044(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Harshal Travels Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akiyo Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00017/ADK/
1045(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Akiyo Consultants Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fresh Force Business Services Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00018/ADK/
1046(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Fresh Force Business Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Everyday Ayurveda Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00019/ADK/
1047(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Everyday Ayurveda Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. 'C' Net Network Marketing Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00020/ADK/
1048(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. 'C' Net Network Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastik Cold Storage and Warehouse Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00023/ADK/
1049(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Swastik Cold Storage and Warehouse Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jasa Mintech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00130/ADK/
1050(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Jasa Mintech Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tania Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00114/ADK/
1051(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Tania Technologies Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Research Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00036/ADK/
1052(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Research Technologies Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Krupa Logistics Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00228/ADK/
1053(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sai Krupa Logistics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shangri-La Shelters Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00104/ADK/
1054(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shangri-La Shelters Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akar Extrusions Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00440/ADK/1055(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akar Extrusions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Phoenix Shares and Stocks Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00439/ADK/1056(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Phoenix Shares and Stocks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chakan Oil Mills Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00437/ADK/1057(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chakan Oil Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wellspring Networks Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00434/ADK/1058(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wellspring Networks Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Premium Publications Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00128/ADK/1059(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Premium Publications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Fruitolla Foods Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00126/ADK/1060(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Green Fruitolla Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gammavision Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00124/ADK/1061(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gammavision Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nihal Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00122/ADK/
1062(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nihal Technologies Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. PMS Precision Motor Components Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00121/ADK/
1063(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. PMS Precision Motor Components Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharp Health Care Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00119/ADK/
1064(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sharp Health Care Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharon Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00117/ADK/
1065(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Sharon Engineering Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green (India) Milk Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00111/ADK/
1066(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Green (India) Milk Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dr. R. B. Chutke Hospitals Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00107/ADK/
1067(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Dr. R. B. Chutke Hospitals Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mira Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00099/ADK/
1068(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mira Technologies Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pawar Structures and Control Equipment Private
Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00157/ADK/
1069(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pawar Structures and Control Equipment Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeena-Pradyna Agroproducts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00147/ADK/
1070(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Jeena-Pradyna Agroproducts Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Native Marketing Information Systems Private
Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00149/ADK/
1071(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Native Marketing Information Systems Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pujari Toolings Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00135/ADK/
1072(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pujari Toolings Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bapji Farms Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00104/ADK/
1073(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Bapji Farms Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Itcomsys Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00092/ADK/
1074(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Itcomsys Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Inous Events and Marketing Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00090/ADK/
1075(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Inous Events and Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pharma Retailers Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00074/ADK/
1076(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pharma Retailers Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Renuka Cables Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00143/ADK/
1077(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Renuka Cables Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Happy Home Estate Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00139/ADK/
1078(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Happy Home Estate Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poona Stock and Securities Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00125/ADK/
1079(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Poona Stock and Securities Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Softoria Infotech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00119/ADK/
1080(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Softoria Infotech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Powermatch Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00111/ADK/
1081(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Powermatch Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Group Engineers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00109/ADK/
1082(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Group Engineers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MSM Securities Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00105/ADK/
1083(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. MSM Securities Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Team Work Productions Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00101/ADK/
1084(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Team Work Productions Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Worldways Business Services Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00100/ADK/
1085(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Worldways Business Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tapola-Hahabaleshwar Resorts Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00098/ADK/
1086(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Tapola-Hahabaleshwar Resorts Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S R S Thermits (India) Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00359/ADK/
1087(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. S R S Thermits (India) Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zutida Foods Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00155/ADK/
1088(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Zutida Foods Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivani Pipe Industries Private Limited
Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00228/ADK/
1089(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shivani Pipe Industries Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Baron Software Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00229/ADK/
1090(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Baron Software Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neapy Kables and Allied Industries Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00198/ADK/
1091(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Neapy Kables and Allied Industries Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anushka Farms Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00199/ADK/
1092(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Anushka Farms Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amber Realty Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00024/ADK/
1093(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Amber Realty Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Keshavacharya Swami Abhiyantri Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00097/ADK/
1094(ii)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Keshavacharya Swami Abhiyantri Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashwamegh Marketing Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00095/ADK/
1095(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ashwamegh Marketing Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Nath Engineering and Works Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00091/ADK/
1096(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shree Nath Engineering and Works Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shilproof Plastics Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00088/ADK/
1097(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shilproof Plastics Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kadam Brothers Infotech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00086/ADK/
1098(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kadam Brothers Infotech Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Home Trade One Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00075/ADK/
1099(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Home Trade One Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ra-Shi Krishi Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00076/ADK/
1100(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ra-Shi Krishi Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zak Real Estates Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00077/ADK/
1101(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Zak Real Estates Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mercury Micro Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00083/ADK/
1102(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mercury Micro Systems Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Netpulse Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00080/ADK/
1103(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Netpulse Technologies Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Origin I T Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00079/ADK/
1104(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Origin I T Systems Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Avanti Resorts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00576/ADK/
1105(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Avanti Resorts Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sant Infotech Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00078/ADK/
1106(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sant Infotech Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navkoka Food and Fruit India Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00070/ADK/
1107(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Navkoka Food and Fruit India Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hrigveda Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00495/ADK/
1108(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Hrigveda Technologies Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Technosoft NG Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00069/ADK/
1109(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Technosoft NG Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai High-way Motel Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00200/ADK/
1110(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sai High-way Motel Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Datta Shetkari Sakhar Karkhana Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00154/ADK/
1111(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shri Datta Shetkari Sakhar Karkhana Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. PRV Electricals Private Limited

Pune 411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00002/ADK/
1112(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. PRV Electricals Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Simmar Computers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00008/ADK/
1113(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Simmar Computers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gondil Foundry S. Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/000195/ADK/
1114(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Gondil Foundry S. Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Herbo-Mineral Pharma Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00123/ADK/
1115(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Herbo-Mineral Pharma Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parmjyot Promotion Marketing and Advertising
Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00125/ADK/
1116(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Parmjyot Promotion Marketing and Advertising
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. DMS Controls Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00449/ADK/
1117(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. DMS Controls Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Discover Technologies Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00127/ADK/
1118(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Discover Technologies Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Santosh Ginning and Pressing Mills Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00129/ADK/
1119(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Santosh Ginning and Pressing Mills Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supra Infosys Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00131/ADK/
1120(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Supra Infosys Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Calamus Infotech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00158/ADK/
1121(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Calamus Infotech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Grace Fabrications Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00197/ADK/
1122(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Grace Fabrications Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ultramatix Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00198/ADK/
1123(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ultramatix Technologies Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gune Irrigation Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00372/ADK/
1124(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Gune Irrigation Systems Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Web Thought Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00101/ADK/
1125(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Web Thought Technologies Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sam Software Ventures Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00005/ADK/
1126(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sam Software Ventures Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Annpurna Ashutosh Hotels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00006/ADK/
1127(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Annpurna Ashutosh Hotels Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sagunamata Constructions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00007/ADK/
1128(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sagunamata Constructions Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balaji Adhesive Tapes Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00009/ADK/
1129(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Balaji Adhesive Tapes Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M S Petrochemicals Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00010/ADK/
1130(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. M S Petrochemicals Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Airways Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00011/ADK/
1131(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Airways Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Dairy Farm Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00014/ADK/
1132(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sai Dairy Farm Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mission Event Management Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00015/ADK/
1133(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mission Event Management Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmashri Healthcare Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00016/ADK/
1134(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Padmashri Healthcare Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Flex Pack Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00019/ADK/
1135(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kamal Flex Pack Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SKT Commercial Services Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00022/ADK/
1136(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. SKT Commercial Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neera Valley Agro Industries Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00023/ADK/
1137(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Neera Valley Agro Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tirumalam Importer and Exporter Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00028/ADK/
1138(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Tirumalam Importer and Exporter Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Silicon Softech (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00050/ADK/
1139(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Silicon Softech (India) Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanmitra Krishi Udyog Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00055/ADK/
1140(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sanmitra Krishi Udyog Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanuman Sakhar Karkhana Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00056/ADK/
1141(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Hanuman Sakhar Karkhana Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Metro Transport Services Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00058/ADK/
1142(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Metro Transport Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Feng Shui Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00062/ADK/
1143(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Feng Shui Developers Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cajole Developers and Resorts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00063/ADK/
1144(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Cajole Developers and Resorts Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nandan Milk and Milk Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00065/ADK/
1145(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nandan Milk and Milk Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cadonix Infosystems Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00067/ADK/
1146(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Cadonix Infosystems Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Saikrupa Biofertilizers Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00069/ADK/
1147(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shri Saikrupa Biofertilizers Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaushik Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00073/ADK/
1148(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kaushik Systems Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahatapras Estates Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00081/ADK/
1149(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mahatapras Estates Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Davis-Standard Plastics Extrusion Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00201/ADK/
1150(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Davis-Standard Plastics Extrusion Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Taj's Knit Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00094/ADK/
1151(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Taj's Knit Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navani Tours and Travels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00025/ADK/
1152(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Navani Tours and Travels Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pune Team Vision Communications Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00180/ADK/
1153(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pune Team Vision Communications Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Atcon Agro-Tech Import Export Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00238/ADK/
1154(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Atcon Agro-Tech Import Export Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Orion Web Surveys Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00012/ADK/
1155(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Orion Web Surveys Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chaturvedeshwar Sakhar Karkhana Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00049/ADK/
1156(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Chaturvedeshwar Sakhar Karkhana Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Celebrity Hills Golf Club Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00017/ADK/
1157(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Celebrity Hills Golf Club Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hansraj Exports Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/000195/ADK/
1158(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Hansraj Exports Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yashomala Impex Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00194/ADK/
1159(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Yashomala Impex Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sache Leben Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00192/ADK/
1160(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sache Leben Engineering Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Phoenix Publications Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00190/ADK/
1161(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Phoenix Publications Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Woventex Exports Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00491/ADK/
1162(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Woventex Exports Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. R. Shinde Brothers Sugar Industries Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00178/ADK/
1163(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. S. R. Shinde Brothers Sugar Industries Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satara Sports and Clubs Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00175/ADK/
1164(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Satara Sports and Clubs Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devdari Sakhar Karkhana Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00167/ADK/
1165(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Devdari Sakhar Karkhana Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Concourd Software System (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00166/ADK/
1166(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Concourd Software System (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Triveni Sangam Sugar Mills Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00164/ADK/
1167(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Triveni Sangam Sugar Mills Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sansac Ortho Plast Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00163/ADK/
1168(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sansac Ortho Plast Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Agro-Tech Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00161/ADK/
1169(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kamal Agro-Tech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sober Spinning and Weaving Mills Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00159/ADK/
1170(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sober Spinning and Weaving Mills Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Change Reengineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00018/ADK/
1171(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Change Reengineering Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nihon Apparel Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00044/ADK/
1172(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nihon Apparel Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vedchem Compositions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00045/ADK/
1173(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vedchem Compositions Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vagbhat Ayurved Niketan Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00158/ADK/
1174(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vagbhat Ayurved Niketan Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Salunkhe Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00127/ADK/
1175(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Hotel Salunkhe Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Allison Brothers Tours and Travels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00153/ADK/
1176(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Allison Brothers Tours and Travels Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varad Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00089/ADK/
1177(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Varad Consultants Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Natureneed Biomedical Waste Management Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00082/ADK/
1178(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Natureneed Biomedical Waste Management Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sonu Catering Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00081/ADK/
1179(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sonu Catering Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. D. S. Y. Builders Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00073/ADK/
1180(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. D. S. Y. Builders Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anand Motels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00072/ADK/
1181(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Anand Motels Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Westmont Capital Advisors Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00067/ADK/
1182(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Westmont Capital Advisors Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Oriental Infocare Solutions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00064/ADK/
1183(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Oriental Infocare Solutions Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shardiya Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00048/ADK/
1184(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shardiya Systems Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poultry Fields Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00034/ADK/
1185(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Poultry Fields Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanumant Agro and Oil Extraction Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00062/ADK/
1186(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Hanumant Agro and Oil Extraction Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Herbico Pharma Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00084/ADK/
1187(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Herbico Pharma Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Torna Hillstations Hotels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00107/ADK/
1188(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Torna Hillstations Hotels Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Soft-Tech Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00102/ADK/
1189(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Raj Soft-Tech Technologies Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayureshwar Dairy Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00099/ADK/
1190(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Mayureshwar Dairy Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Soft India Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00108/ADK/
1191(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Sun Soft India Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kusum Kones Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00113/ADK/
1192(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kusum Kones Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saitech Business Link Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00114/ADK/
1193(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Saitech Business Link Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunrise Vally Resort and Developer Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/001164/ADK/
1194(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sunrise Vally Resort and Developer Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Toliman Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/001119/ADK/1195(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Toliman Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anandrushiji Sakhar Karkhana Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/001124/ADK/1198(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anandrushiji Sakhar Karkhana Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cell-Wave Communications Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/001120/ADK/1196(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cell-Wave Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apna Telecommunication Services Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/001126/ADK/1199(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apna Telecommunication Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Life and Hope International Foundation

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/001123/ADK/1197(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Life and Hope International Foundation unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sindhudrug Zilha Sugar and Agro Products Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/001128/ADK/1200(i)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sindhudrug Zilha Sugar and Agro Products Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

पुणे-४११००४, दि. ३१ डिसेंबर २००७
न. ५६०(३) एम. सी. आर. सी. पुणे/सेक ५६०/२००७/००११२३/ए. डी. के. ११९७(१)—नोटीस येथे देण्यात येते की, १९५६ च्या कंपनी अधिनियम, १९५६ च्या सेक्शन ५६० च्या उप-सेक्शन (३) च्या अन्वये, या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत या कंपनीच्या नावावर कोणताही कारण नसल्यास, या कंपनीचे नाव रजिस्ट्रार ऑफ कंपन्यांच्या कार्यालयातून हटविले जाईल आणि या कंपनीला दुरुस्त करून घ्यावी लागेल.